



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 102]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1977 फाल्गुन 6, 1898

No 102]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1977 PHALGUNA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February 1977

S.O. 200(E).—Whereas the Election Commission by its notification No 464/77, dated 10 February, 1977 issued under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) has appointed—

- (1) 16 March, 1977 (Wednesday), as the date of poll for all parliamentary constituencies (Nos. 1 to 4) in Himachal Pradesh, and
- (2) 19 March, 1977 (Saturday), as the date of poll in 4 Ladakh parliamentary constituency in Jammu and Kashmir,

And whereas, the Election Commission is satisfied that on account of unavoidable circumstances the poll in 1-Kinnaur (ST), 54-Bharmour (ST) and 55-Lahaul and Spiti (ST) assembly constituencies comprised within 2 Mandi parliamentary constituency of Himachal Pradesh and in 4 Ladakh parliamentary constituency in Jammu and Kashmir cannot be taken on the dates fixed,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 and section 153 of the Representation of the People Act, 1951, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification referred to above, namely—

- I For the existing clause (d) of item (1) relating to the completion of elec-

tion, the following clauses shall be substituted, namely—

- “(d) (i) 23 March, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed in all parliamentary constituencies excepting 2 Mandi parliamentary constituency in the State of Himachal Pradesh and 4 Ladakh parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir, and
- (d) (ii) 15 June, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed in 2 Mandi parliamentary constituency in the State of Himachal Pradesh and 4 Ladakh parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir”

II. In the Schedule to the said notification—

- (1) under item 6 HIMACHAL PRADESH, for the existing entries under columns 1, 2 and 3 the following entries shall be substituted —

“1. Simla (SC) . . . . .	16 March, 1977 (Wednesday)	
2 Mandi . . . . .	24 May, 1977 (Tuesday)	1. Kinnaur (ST)
	16 March, 1977 (Wednesday)	2. Rampur (SC)
	24 May, 1977 (Tuesday)	54 Bharmour (ST)
	24 May, 1977 (Tuesday)	55. Lahaul & Spiti (ST)
	16 March, 1977 (Wednesday)	56 Kulu
	16 March, 1977 (Wednesday)	57. Banjar
	16 March, 1977 (Wednesday)	58 An (SC)
	16 March, 1977 (Wednesday)	59. Karsog (SC)
	16 March, 1977 (Wednesday)	60 Chachiot
	16 March, 1977 (Wednesday)	61. Nachan (SC)
	16 March, 1977 (Wednesday)	62. Sundernagar
	16 March, 1977 (Wednesday)	63 Balh (SC)
	16 March, 1977 (Wednesday)	64 Gopalpur
	16 March, 1977 (Wednesday)	65 Dharampur
	16 March, 1977 (Wednesday)	66. Joginder Nagar
	16 March, 1977 (Wednesday)	67. Darang
	16 March, 1977 (Wednesday)	68. Mandi
3. Kangra . . . . .	16 March, 1977 (Wednesday)	
4. Hamirpur . . . . .	16 March, 1977 (Wednesday)”	

- (2) Under item 7 JAMMU AND KASHMIR, in column 2 for the existing entry against S No. 4. Ladakh, the entry “8 June, 1977 (Monday)” shall be substituted.

[No 464/77]

By Order,

A. N SEN, Secy.

**भारत निर्वाचन आयोग**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1977

क्र० घा० 200 (अ).—निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 10 फरवरी, 1977 द्वारा —

- (1) हिमाचल प्रदेश के सं० 1 से 4 तक के सभी ससदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख के रूप में 16 मार्च, 1977 (बुधवार) तथा

- (2) जम्मू-कश्मीर के 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान की तारीख के रूप में 19 मार्च, 1977 (शनिवार)

नियत की है ;

और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश के 2-मंडी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट 1-विधौर (अ० ज० ७१०) 54-भारमौर (अ० ज० ७१०) और 55-लाहौल स्पीति (अ० ७० जा०) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में तथा जम्मू-कश्मीर के 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान उक्त नियत तारीखों को नहीं कराया जा सकता है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ऊपर वर्णित अपनी अधिमूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् —

- I. निर्वाचन पूरा करा लेने में संबंधित मद (i) के विद्यमान खण्ड (घ) को स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्

“(घ) (i) वह तारीख जिसके पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य के 2-मंडी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन पूरा कर दिया जाएगा—23 मार्च, 1977 (बुधवार), तथा

(घ) (ii) वह तारीख जिससे पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य के 2-मंडी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर दिया जाएगा—15 जून, 1977 (बुधवार)।”

## II. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

- (1) मद 6-हिमाचल प्रदेश के अधीन स्तम्भ 1, 2 और 3 में विद्यमान प्रविष्टियों को स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :—

“1 शिमला (अ० जा०) 16 मार्च, 1977 (बुधवार)

2 मंडी	24 मई, 1977 (मंगलवार)	1-किन्नौर (अ० ज० जा०)
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	2-रामपुर (अ० जा०)
	24 मई, 1977 (मंगलवार)	54-भारमौर (अ० ज० जा०)
	24 मई, 1977 (मंगलवार)	55-लाहौल और स्पीति (अ० ज० जा०)
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	56-कुल्लू
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	57-बजौर
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	58-आनी (अ० जा०)
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	59-करसोग (अ० जा०)

	16 मार्च 1977 (बुधवार)	60—चच्चीट
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	61—नाचण (अ० 510)
	16 मार्च 1977 (बुधवार)	62—सुन्दरनगर
	16 मार्च 1977 (बुधवार)	63—बन्हे (अ० 510)
	16 मार्च 1977 (बुधवार)	64—गोपालपुर
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	65—धरमपुर
	16 मार्च 1977 (बुधवार)	66—जोगिन्द्रनगर
	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	67—दरग
	16 मार्च 1977 (बुधवार)	68—मण्डो
3 कागडा	16 मार्च, 1977 (बुधवार)	
4 हमीरपुर	16 मार्च 1977 (बुधवार)"	

2 मद 7 जम्मू-काश्मीर के अधीन क्रम सं० 4—लद्दाख के सामने स्तम्भ 2 से विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "6 जन, 1977 (सोमवार)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[स० 464/77]

आदेश मे,

ए० एन० सैत, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977